

SET-2

Series ZZY1/C



प्रश्न-पत्र कोड
Q.P. Code 32/C/2

रोल नं.
Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें ।

Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.

सामाजिक विज्ञान SOCIAL SCIENCE

निर्धारित समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 80

Time allowed : 3 hours

Maximum Marks : 80

- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 21 + 1 मानचित्र हैं ।
- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें ।
- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 37 प्रश्न हैं ।
- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें ।
- इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है । प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा । 10.15 बजे से 10.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे ।
- Please check that this question paper contains 21 printed pages +1 Map.
- Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- Please check that this question paper contains 37 questions.
- Please write down the serial number of the question in the answer-book before attempting it.
- 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

32/C/2

^

1



P.T.O.



सामान्य निर्देश:

निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से पालन कीजिए :

- (i) इस प्रश्न-पत्र में 37 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) यह प्रश्न-पत्र छः खण्डों में विभाजित है – खण्ड क, ख, ग, घ, ङ एवं च।
- (iii) खण्ड क – प्रश्न संख्या 1 से 20 तक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।
- (iv) खण्ड ख – प्रश्न संख्या 21 से 24 अति लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 40 शब्दों में लिखिए।
- (v) खण्ड ग – प्रश्न संख्या 25 से 29 तक लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 60 शब्दों में लिखिए।
- (vi) खण्ड घ – प्रश्न संख्या 30 से 33 दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 120 शब्दों में लिखिए।
- (vii) खण्ड ङ – प्रश्न संख्या 34 से 36 केस-आधारित प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के साथ 3 – 3 उप-प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है।
- (viii) खण्ड च में प्रश्न संख्या 37 मानचित्र-आधारित है। यह प्रश्न 5 अंक का है, जो कि इतिहास से (37(क) – 2 अंक) तथा भूगोल (37(ख) – 3 अंक) से संबंधित है।
- (ix) प्रश्न-पत्र में समग्र पर कोई विकल्प नहीं है। तथापि, कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। ऐसे प्रश्नों में से केवल एक ही विकल्प का उत्तर लिखिए।
- (x) इसके अतिरिक्त, आवश्यकतानुसार, प्रत्येक खण्ड और प्रश्न के साथ यथोचित निर्देश दिए गए हैं।

खण्ड क

(बहुविकल्पीय प्रश्न)

(20×1=20)

1. निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को 'सोने का शहर' कहा जाता था ?
 - (a) पेरू
 - (b) मैक्सिको
 - (c) एल डोराडो
 - (d) स्पेन



General Instructions :

Read the following instructions very carefully and strictly follow them :

- (i) This question paper contains **37** questions. **All** questions are **compulsory**.
- (ii) This question paper comprises **six** sections – **Sections A, B, C, D, E and F**.
- (iii) **Section A** – Questions no. **1 to 20** are MCQs of **1** mark each.
- (iv) **Section B** – Questions no. **21 to 24** are very short answer type questions, carrying **2** marks each. Answer to each question should not exceed **40** words.
- (v) **Section C** – Questions no. **25 to 29** are short answer type questions, carrying **3** marks each. Answer to each question should not exceed **60** words.
- (vi) **Section D** – Questions no. **30 to 33** are long answer type questions, carrying **5** marks each. Answer to each question should not exceed **120** words.
- (vii) **Section E** – Questions no. **34 to 36** are case-based questions with three sub-questions and are of **4** marks each.
- (viii) **Section F** – Question no. **37** is map-based, carrying **5** marks with two parts, **37(a)** from History (**2** marks) and **37(b)** from Geography (**3** marks).
- (ix) There is no overall choice in the question paper. However, an internal choice has been provided in few questions. **Only one of the choices** in such questions has to be attempted.
- (x) In addition to this, separate instructions are given with each section and question, wherever necessary.

SECTION A

(Multiple Choice Questions)

(20×1=20)

1. Which one of the following regions was called as the 'Fabled City of Gold' ?
- (a) Peru
 - (b) Mexico
 - (c) El Dorado
 - (d) Spain



2. निम्नलिखित में से कौन-सी किताब रशसुंदरी देवी की आत्मकथा है ?

- (a) आमार जीवन
- (b) स्त्री धर्म विचार
- (c) गुलामगिरी
- (d) घोर कलि

3. सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।

1558 के दौरान रोम में _____ ने प्रतिबंधित किताबों की सूची रखना शुरू किया।

- (a) चर्च
- (b) अभिजात वर्ग
- (c) प्रोटेस्टेंट
- (d) उद्योगपतियों

4. नीचे दिए गए चित्र को देखिए और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए :



निम्नलिखित में से कौन-सा पहलू 'जर्मनिया' के इस चित्र को सबसे सही दर्शाता है ?

- (a) जर्मनी के रक्षक के रूप में
- (b) अपने बच्चे के रक्षक के रूप में
- (c) जर्मन राइन के रक्षक के रूप में
- (d) महिलाओं के अधिकारों के संरक्षक के रूप में



2. Which of the following books is the autobiography of Rashundari Devi ?

- (a) *Amar Jiban*
- (b) *Istri Dharam Vichar*
- (c) *Gulamgiri*
- (d) *Ghor Kali*

3. Fill in the blank with the appropriate option.

_____ began to maintain index of prohibited books in Rome during 1558.

- (a) Church
- (b) Aristocrats
- (c) Protestants
- (d) Industrialists

4. Look at the picture given below and select the correct option from the following :



Which of the following aspects best signifies this image of 'Germania' ?

- (a) As a protector of Germany
- (b) As a protector of her child
- (c) As a protector of German Rhine
- (d) As a guardian of women's rights



5. दी गई जानकारी की सहायता से फ़सल की पहचान कीजिए।

- भारत विश्व में इस फ़सल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है।
- शाकाहारी खाने में यह सबसे प्रोटीनदायक फ़सल है।
- इन फ़सलों को कम नमी और शुष्क परिस्थितियों में उगाया जाता है।
- इन फ़सलों को आमतौर पर अन्य फ़सलों के आवर्तन में बोया जाता है।

विकल्प :

- (a) गेहूँ (b) बाजरा
(c) दालें (d) चावल

6. भैरोंदेव डाकव 'सोंचूरी' के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही **नहीं** है ?

- (a) इसमें 1200 हेक्टेयर वन भूमि है।
(b) राजस्थान के अलवर जिले के पाँच गाँवों के निवासियों ने इसे 'सोंचूरी' घोषित किया है।
(c) किन्हीं बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ वन्य जीवन को बचाया जाता है।
(d) यहाँ के कायदे-कानून सरकार द्वारा घोषित किए गए हैं।

7. स्तम्भ 1 का स्तम्भ 2 से मिलान कीजिए और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए :

स्तम्भ 1 (भूमि उपयोग श्रेणी)	स्तम्भ 2 (उद्देश्य)
A. वन	I. सड़क, रेलवे, उद्योग, आदि के लिए
B. ग़ैर-कृषि उपयोग की भूमि	II. मवेशियों के पोषण के लिए भूमि
C. स्थायी चरागाह	III. फ़सलों की खेती के लिए भूमि
D. शुद्ध बोया गया क्षेत्र	IV. पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक

विकल्प :

- (a) A-I, B-II, C-III, D-IV
(b) A-II, B-III, C-IV, D-I
(c) A-III, B-IV, C-I, D-II
(d) A-IV, B-I, C-II, D-III



5. Identify the crop with the help of the given information.

- India is the largest producer as well as the consumer of this crop.
- This crop provides the major source of protein in a vegetarian diet.
- This crop needs less moisture and survives even in dry conditions.
- This crop is mostly grown in rotation with other crops.

Options :

- (a) Wheat (b) Bajra
(c) Pulses (d) Rice

6. Which among the following statements is **not** correct regarding the Bhairodev Dakav 'Sonchuri' ?

- (a) It includes 1200 hectares of forest land.
(b) The inhabitants of five villages in the Alwar district of Rajasthan declared this 'Sonchuri'.
(c) They are protecting the wildlife against any outside encroachments.
(d) The rules and regulations followed here are declared by the government.

7. Match Column 1 with Column 2 and select the correct option from the following :

<i>Column 1</i> (<i>Land use categories</i>)	<i>Column 2</i> (<i>Purpose</i>)
A. Forests	I. Used for roads, railways, industry etc.
B. Land put to non-agricultural uses	II. Land for feeding the cattle population
C. Permanent Pastures	III. Land for cultivation of crops
D. Net Sown Area	IV. Essential for maintenance of ecological balance

Options :

- (a) A-I, B-II, C-III, D-IV
(b) A-II, B-III, C-IV, D-I
(c) A-III, B-IV, C-I, D-II
(d) A-IV, B-I, C-II, D-III



8. श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन-सा अल्पसंख्यक समूह है ?
- (a) तमिल (b) ईसाई
(c) सिंहली (d) मुस्लिम
9. नगर निगम के अधिकारी को क्या कहा जाता है ?
- (a) मेयर (b) विधायक
(c) सरपंच (d) प्रधान
10. निम्नलिखित देशों में से किसमें राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक है ?
- (a) फिनलैंड (b) हंगरी
(c) रूस (d) लातविया
11. राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किस विकल्प की एक आवश्यक शर्त हैं ?
- (a) लोकतंत्र (b) सत्तावाद
(c) तानाशाही (d) निरंकुशता
12. किस देश के आर्थिक विकास में निम्नलिखित में से कौन-सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका **नहीं** निभाता है ?
- (a) वैश्वीकरण पर दूसरे देशों से सहयोग
(b) जनसंख्या का आकार
(c) सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक वरीयता
(d) पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय मुद्दे
13. बेल्जियम में 'सामुदायिक सरकार' लागू करने के उचित कारण को पहचानिए ।
- (a) विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच सत्ता के बँटवारे को सक्षम करने के लिए
(b) सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता की साझेदारी सुनिश्चित करने के लिए
(c) उच्च भाषी समुदाय को अधिक शक्ति देने के लिए
(d) विभिन्न धार्मिक और भाषायी सामाजिक समूहों के बीच शक्ति साझा करने के लिए



-
8. Which one of the following is the minority group in Sri Lanka ?
- (a) Tamils (b) Christians
(c) Sinhalese (d) Muslims
9. The Municipal Corporation officers are called :
- (a) Mayors (b) MLAs
(c) Sarpanchs (d) Premiers (Pradhan)
10. In which of the following countries is the participation of women in politics very high ?
- (a) Finland (b) Hungary
(c) Russia (d) Latvia
11. In which one of the following options are political parties a necessary condition ?
- (a) Democracy (b) Authoritarian
(c) Dictatorship (d) Despotism
12. Which one of the following factors does **not** play a significant role in the economic development of a country ?
- (a) Co-operation from other countries on globalisation
(b) Size of the population
(c) Economic priorities adopted by the Government
(d) Territorial issues with neighbouring countries
13. Identify the appropriate reason for introduction of 'Community Government' in Belgium.
- (a) To enable power sharing among various political parties.
(b) To ensure power sharing among various organs of the Government.
(c) To give more power to the Dutch speaking community.
(d) To share power among different religious and linguistic social groups.



14. निम्नलिखित में से कौन-सी औसत आय की सही व्याख्या है ?
- (a) जनसंख्या की कुल आय
 - (b) जनसंख्या में सबसे अधिक कमाने वालों द्वारा अर्जित आय
 - (c) जनसंख्या में सबसे कम कमाने वालों द्वारा अर्जित आय
 - (d) जनसंख्या में व्यक्तियों की संख्या से विभाजित कुल आय
15. एक अमीर परिवार की एक लड़की के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से विकासात्मक लक्ष्य का चयन कीजिए :
- (a) काम के अधिक दिन मिलना
 - (b) अपने भाई जैसी स्वतंत्रता मिलना
 - (c) बिजली मिलना
 - (d) बेहतर वेतन मिलना
16. निम्नलिखित में से कौन-सा अधिनियम संगठित क्षेत्र के उद्यम पर लागू नहीं होगा ?
- (a) न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम
 - (b) राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम
 - (c) फैक्टरी अधिनियम
 - (d) ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम
17. कमलकांत एक दुकानदार है जो अपना कर समय पर भरता है, हालांकि उसकी दुकान के किसी भी कर्मचारी को साल में सवैतनिक अवकाश नहीं मिलता है। दी गई स्थिति के आधार पर, सही विकल्प का चयन कीजिए।
- (a) कर्मचारी संगठित क्षेत्रक में कार्यरत हैं।
 - (b) कर्मचारी असंगठित क्षेत्रक में कार्यरत हैं।
 - (c) कर्मचारी संयुक्त क्षेत्रक में कार्यरत हैं।
 - (d) कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्रक में कार्यरत हैं।



-
14. Which one of the following is a correct explanation of Average income ?
- (a) The total income of a population
 - (b) The income earned by the highest earners in a population
 - (c) The income earned by the lowest earners in a population
 - (d) The total income divided by the number of individuals in a population
15. Select the developmental goal for a girl from a rich family from the following options :
- (a) To get more days of work
 - (b) To get as much freedom as her brother gets
 - (c) To get electricity
 - (d) To get better wages
16. Which of the following Acts would **not** apply on an enterprise under organised sector ?
- (a) Minimum Wages Act
 - (b) National Rural Employment Guarantee Act
 - (c) Factories Act
 - (d) Payment of Gratuity Act
17. Kamalkant is a shopkeeper who pays his taxes on time, however none of the workers in his shop get any paid leave in the year. On the basis of the given situation, find out the correct option.
- (a) Workers are employed in the organised sector.
 - (b) Workers are engaged in the unorganised sector.
 - (c) Workers are employed in the joint sector.
 - (d) Workers are employed in the public sector.



18. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही **नहीं** है ?
- (a) एक सहकारी समिति के सदस्य अपने संसाधनों को साझा करते हैं।
- (b) ग्रामीण क्षेत्रों में, सस्ते ऋण का मुख्य स्रोत सहकारी समितियाँ हैं।
- (c) सहकारी समितियाँ कई प्रकार की हैं, जैसे किसान सहकारी समितियाँ आदि।
- (d) सहकारी समितियाँ स्थानीय स्वशासन के अधीन कार्य करती हैं।
19. निम्नलिखित में कौन-सा भारत में 1991 में आर्थिक नीति का दूरगामी परिवर्तन है ?
- (a) व्यापार अवरोधकों से प्रतिबंध हटाना
- (b) विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध लगाना
- (c) विदेशी प्रतिस्पर्धा पर प्रतिबंध लगाना
- (d) स्थानीय और विदेशी उत्पादकों को संरक्षण देना
20. निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता बहुराष्ट्रीय कंपनियों की **नहीं** है ?
- (a) यह एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती हैं।
- (b) यह वहाँ कारखाने स्थापित करती हैं जहाँ से बाज़ार नज़दीक हों।
- (c) इनकी उत्पादन प्रक्रिया जटिल ढंग से संगठित होती है।
- (d) यह केवल अपने ही देश के श्रमिकों को कार्यरत करती हैं।

खण्ड ख

(अति लघु-उत्तरीय प्रश्न)

(4×2=8)

21. व्यावसायिक गतिशीलता के किन्हीं दो पहलुओं का उल्लेख कीजिए। 2
22. (क) कृषि में भारतीय सरकार द्वारा किए गए किन्हीं दो प्रौद्योगिकीय सुधारों की व्याख्या कीजिए। 2
- अथवा**
- (ख) कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किस प्रकार रहा है ? स्पष्ट कीजिए। 2
23. उन्नीसवीं सदी में भारत में मुद्रण-संस्कृति के प्रसार में महिलाओं की भूमिका की व्याख्या कीजिए। 2
24. भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्रक की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। 2



-
18. Which of the following statements is **not** correct ?
- (a) Members of a co-operative pool their resources.
 - (b) In rural areas, the major source of cheap credit is co-operative societies.
 - (c) There are several types of co-operatives such as farmer co-operatives etc.
 - (d) Co-operative societies work under the local self-government.
19. Which one among the following is a far-reaching change in the Economic Policy of India in 1991 ?
- (a) Removing barriers on trade
 - (b) Putting barriers on foreign trade
 - (c) Restrictions on foreign competition
 - (d) Protection to domestic and foreign producers
20. Which of the following is **not** a feature of a Multinational Company ?
- (a) It controls production in more than one nation.
 - (b) It sets up factories where it is close to the market.
 - (c) It organises production in complex ways.
 - (d) It employs labour only from its own country.

SECTION B

(Very Short Answer Type Questions)

(4×2=8)

21. Mention any two aspects of occupational mobility. 2
22. (a) Explain any two technological reforms initiated by the Indian Government in agriculture. 2
- OR**
- (b) How has agriculture been the backbone of the Indian economy ? Explain. 2
23. Explain the role of women in spreading the print culture in India during the nineteenth century. 2
24. Analyse the role of tertiary sector in the Indian economy. 2



खण्ड ग

(लघु-उत्तरीय प्रश्न)

(5×3=15)

25. (क) शहरों में असहयोग आंदोलन धीमा क्यों पड़ा ? स्पष्ट कीजिए। 3
अथवा
(ख) सविनय अवज्ञा आन्दोलन में व्यापारी वर्ग की भागीदारी को स्पष्ट कीजिए। 3
26. किसी विकासात्मक गतिविधि के लिए संसाधन आवश्यक क्यों हैं ? स्पष्ट कीजिए। 3
27. भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। 3
28. “लोकतंत्र उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है।” इस कथन की न्यायसंगत पुष्टि कीजिए। 3
29. किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के योगदान की व्याख्या कीजिए। 3

खण्ड घ

(दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न)

(4×5=20)

30. (क) 1815 की वियना संधि में लिए गए निर्णयों का वर्णन कीजिए। 5
अथवा
(ख) 1830 के दशक में यूरोप के सामने आने वाली आर्थिक कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। 5
31. (क) भारत में परिवहन के साधन के रूप में पाइपलाइनों का उपयोग करने के लाभों का विश्लेषण कीजिए। 5
अथवा
(ख) भारतीय अर्थव्यवस्था में ‘व्यापार’ के महत्त्व की परख कीजिए। 5
32. (क) ग्रामीण समाज में स्व-सहायता समूहों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। 5
अथवा
(ख) बैंकों और सहकारी समितियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी ऋण गतिविधियों का विस्तार क्यों आवश्यक है ? स्पष्ट कीजिए। 5



SECTION C
(Short Answer Type Questions)

(5×3=15)

25. (a) Why did the Non-Cooperation Movement slow down in towns and cities ? Explain. 3

OR

(b) Explain the participation of the business class in the Civil Disobedience Movement. 3

26. Why are resources vital for any developmental activity ? Explain. 3

27. Analyse the impact of globalization on the Indian economy. 3

28. “Democracy produce an accountable, responsive and legitimate government.” Justify this statement. 3

29. Explain the contribution of Public Sector in the economic development of a nation. 3

SECTION D
(Long Answer Type Questions)

(4×5=20)

30. (a) Describe the decisions taken in the Treaty of Vienna of 1815. 5

OR

(b) Describe the economic hardships faced by Europe in 1830s. 5

31. (a) Analyse the benefits of using pipelines as a means of transport in India. 5

OR

(b) Examine the significance of ‘Trade’ for the Indian economy. 5

32. (a) Explain the role of Self-Help Groups in rural society. 5

OR

(b) Why is it necessary for banks and co-operatives to extend their lending activities in rural areas ? Explain. 5



33. (क) राजनीतिक दलों को परिभाषित कीजिए। राजनीतिक दलों के सामने आने वाली किन्हीं चार प्रमुख चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए। 1+4=5

अथवा

- (ख) बहुदलीय व्यवस्था को परिभाषित कीजिए। इनके गुणों और दोषों को स्पष्ट कीजिए। 1+2+2=5

खण्ड ड

(केस-आधारित प्रश्न)

(3×4=12)

34. निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले लेकिन उनकी संख्या में तेजी से इजाफ़ा अठारहवीं सदी के आखिर में ही हुआ।

कपास (कॉटन) नए युग का पहला प्रतीक थी। उन्नीसवीं सदी के आखिर में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख पौंड कच्चे कपास का आयात करता था। 1787 में यह आयात बढ़कर 220 लाख पौंड तक पहुँच गया। यह इजाफ़ा उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलावों का परिणाम था। आइए देखें कि ये बदलाव कौन-से थे।

अठारहवीं सदी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया (कार्डींग, ऐंठना व कताई, और लपेटने) के हर चरण की कुशलता बढ़ा दी। प्रति मज़दूर उत्पादन बढ़ गया और पहले से ज़्यादा मज़बूत धागों व रेशों का उत्पादन होने लगा। इसके बाद रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी। अभी तक कपड़ा उत्पादन पूरे देहात में फैला हुआ था। यह काम लोग अपने-अपने घर पर ही करते थे। लेकिन अब महँगी नयी मशीनें खरीदकर उन्हें कारखानों में लगाया जा सकता था। कारखाने में सारी प्रक्रियाएँ एक छत के नीचे और एक मालिक के हाथों में आ गई थीं। इसके चलते उत्पादन प्रक्रिया पर निगरानी, गुणवत्ता का ध्यान रखना और मज़दूरों पर नज़र रखना संभव हो गया था। जब तक उत्पादन गाँवों में हो रहा था तब तक ये सारे काम संभव नहीं थे।

- (34.1) सबसे पहले कारखाने कब लगाए गए? 1
- (34.2) मिलों में, सभी प्रक्रियाओं को एक ही प्रबंधन के तहत क्यों रखा गया था? 1
- (34.3) अठारहवीं शताब्दी में आविष्कारों की शृंखला ने उत्पादन प्रक्रिया की प्रभावकारिता को कैसे बढ़ाया? 2



-
33. (a) Define Political Parties. Explain any four main challenges faced by the political parties. 1+4=5

OR

- (b) Define multi-party system. Explain its merits and demerits. 1+2+2=5

SECTION E
(Case-Based Questions) (3×4=12)

34. Read the following source carefully and answer the questions that follow :

The earliest factories in England came up by the 1730s. But it was only in the late eighteenth century that the number of factories multiplied.

The first symbol of the new era was cotton. Its production boomed in the late nineteenth century. In 1760 Britain was importing 2.5 million pounds of raw cotton to feed its cotton industry. By 1787 this import soared to 22 million pounds. This increase was linked to a number of changes within the process of production. Let us look briefly at some of these.

A series of inventions in the eighteenth century increased the efficacy of each step of the production process (carding, twisting and spinning, and rolling). They enhanced the output per worker, enabling each worker to produce more, and they made possible the production of storage threads and yarn. Then Richard Arkwright created the cotton mill. Till this time, as you have seen, cloth production was spread all over the countryside and carried out within village households. But now, the costly new machines could be purchased, set up and maintained in the mill. Within the mill all the processes were brought together under one roof and management. This allowed a more careful supervision over the production process, a watch over quality, and the regulation of labour, all of which had been difficult to do when production was in the countryside.

- (34.1) When did the earliest factories come up ? 1
- (34.2) Why were all the processes brought together under one roof and management in the mill ? 1
- (34.3) How did the series of inventions in the eighteenth century increase the efficacy of the production process ? 2



35. निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

बाँध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जलभरण बनाती हैं। “बाँध” का अर्थ जलाशय से लिया जाता है न कि इसके ढाँचे से। अधिकतर बाँधों में एक ढलवाँ हिस्सा होता है जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक-रुक कर या लगातार बहता है। बाँधों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उद्देश्य या ऊँचाई के अनुसार किया जाता है। संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बाँधों को लकड़ी के बाँध, तटबंध बाँध या पक्का बाँध के अलावा कई उपवर्गों में बाँटा जा सकता है। ऊँचाई के अनुसार बाँधों को बड़े बाँध और मुख्य बाँध या नीचे बाँध, मध्यम बाँध और उच्च बाँधों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

- (35.1) ‘बाँध’ शब्द का वास्तव में क्या अर्थ है ? 1
- (35.2) बहु-उद्देशीय नदी घाटी परियोजना के किसी एक लाभ का उल्लेख कीजिए। 1
- (35.3) बहु-उद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएँ किस प्रकार सामाजिक आंदोलनों का कारण बनी हैं ? स्पष्ट कीजिए। 2

36. निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

सत्ता के बँटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव-समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियाँ सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंद्विता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे। एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाएँगे कि सत्ता बारी-बारी से अलग-अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ आती-जाती रहती है। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है क्योंकि दो या अधिक पार्टियाँ मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती हैं। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित-समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य-वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं।

- (36.1) विभिन्न पार्टियों के बीच प्रतिस्पर्धा क्या सुनिश्चित करती है ? 1
- (36.2) हित-समूह राजनीति से किस प्रकार संबंधित हैं ? 1
- (36.3) सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। 2



35. Read the following source carefully and answer the questions that follow :

A dam is a barrier across flowing water that obstructs, directs or retards the flow, often creating a reservoir, lake or impoundment. “Dam” refers to the reservoir rather than the structure. Most dams have a section called a spillway or weir over which or through which it is intended that water will flow either intermittently or continuously. Dams are classified according to structure, intended purpose or height. Based on structure and the materials used, dams are classified as timber dams, embankment dams or masonry dams, with several subtypes. According to the height, dams can be categorised as large dams and major dams or alternatively as low dams, medium height dams and high dams.

- (35.1) What does the word ‘Dam’ actually refer to ? 1
- (35.2) Mention any one benefit of a Multi-purpose River Valley Project. 1
- (35.3) How have multi-purpose river valley projects a cause of social movements ? Explain. 2

36. Read the following source carefully and answer the questions that follow :

Power sharing arrangements can also be seen in the way political parties, pressure groups and movements control or influence those in power. In a democracy, the citizens must have freedom to choose among various contenders for power. In contemporary democracies, this takes the form of competition among different parties. Such competition ensures that power does not remain in one hand. In the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups. Sometimes this kind of sharing can be direct, when two or more parties form an alliance to contest elections. If their alliance is elected, they form a coalition government and thus share power. In a democracy, we find interest groups, such as those of traders, businessmen, industrialists, farmers and industrial workers. They also will have a share in governmental power, either through participation in governmental committees or bringing influence on the decision-making process.

- (36.1) What does competition among different parties ensure ? 1
- (36.2) How are interest groups associated with politics ? 1
- (36.3) Explain the different forms of power sharing. 2



खण्ड च
(मानचित्र-आधारित प्रश्न)

(2+3=5)

- 37.** (क) **भारत** के दिए गए राजनीतिक रेखा-मानचित्र (पृष्ठ 23 पर), में दिए गए दो स्थानों को A और B से अंकित किया गया है। इन स्थानों को नीचे दी गई जानकारी की सहायता से पहचानिए और उनके सही नाम उनके निकट खींची गई रेखाओं पर लिखिए : 2×1=2
- (i) वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था।
- (ii) वह स्थान जहाँ गाँधीजी ने नील के खेतीहरों के लिए सत्याग्रह आयोजित किया था।
- (ख) **भारत** के इसी राजनीतिक रेखा-मानचित्र में, निम्नलिखित में से किन्हीं **तीन** को उपयुक्त चिन्हों से अंकित कीजिए और उनके नाम लिखिए : 3×1=3
- (i) सलाल बाँध
- (ii) रामागुंडम तापीय विद्युत संयंत्र
- (iii) गाँधीनगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क
- (iv) तूतीकोरिन — समुद्र-पतन

नोट : निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 37 के स्थान पर हैं :

किन्हीं **पाँच** प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 5×1=5

- (37.1) उस स्थान का नाम लिखिए जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था।
- (37.2) गुजरात के उस स्थान का नाम लिखिए जहाँ मिल मजदूरों ने गाँधीजी के नेतृत्व में सत्याग्रह आयोजित किया था।
- (37.3) उस राज्य का नाम लिखिए जहाँ सलाल बाँध स्थित है।
- (37.4) उस राज्य का नाम लिखिए जहाँ रामागुंडम तापीय विद्युत संयंत्र स्थित है।
- (37.5) उस राज्य का नाम लिखिए जहाँ गाँधीनगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है।
- (37.6) उस राज्य का नाम लिखिए जहाँ तूतीकोरिन समुद्र-पतन स्थित है।



SECTION F

(Map-Based Questions)

(2+3=5)

37. (a) Two places A and B have been marked on the given political outline map of **India** (on page 23). Identify these places with the help of the following information and write their correct names on the lines drawn near them : 2×1=2
- (i) The place where the Indian National Congress Session was held in 1927.
 - (ii) The place where Gandhiji organised Satyagraha for the indigo planters.
- (b) On the same political outline map of **India**, locate and label any **three** of the following with suitable symbols : 3×1=3
- (i) Salal Dam
 - (ii) Ramagundam Thermal Power Plant
 - (iii) Gandhinagar Software Technology Park
 - (iv) Tuticorin — Sea Port

Note : The following questions are for the **Visually Impaired Candidates** only, in lieu of Q. No. 37.

Answer any **five** questions.

5×1=5

- (37.1) Name the place where the Indian National Congress Session was held in 1927.
- (37.2) Name the place in Gujarat where mill workers organized Satyagraha under Gandhiji's leadership.
- (37.3) Name the state where Salal Dam is located.
- (37.4) Name the state where Ramagundam Thermal Power Plant is located.
- (37.5) Name the state where Gandhinagar Software Technology Park is located.
- (37.6) Name the state where Tuticorin Sea Port is located.






प्रश्न सं. 37 के लिए

For question no. 37

भारत का रेखा-मानचित्र (राजनीतिक)
Outline Map of India (Political)



Marking Scheme
Strictly Confidential
(For Internal and Restricted use only)

Secondary School Supplementary Examination, July- 2023

SUBJECT NAME: Social Science SUBJECT CODE 32/C/2 PAPER CODE087

General Instructions: -

1.	You are aware that evaluation is the most important process in the actual and correct assessment of the candidates. A small mistake in evaluation may lead to serious problems which may affect the future of the candidates, education system and teaching profession. To avoid mistakes, it is requested that before starting evaluation, you must read and understand the spot evaluation guidelines carefully.
2.	“Evaluation policy is a confidential policy as it is related to the confidentiality of the examinations conducted, Evaluation done and several other aspects. Its’ leakage to public in any manner could lead to derailment of the examination system and affect the life and future of millions of candidates. Sharing this policy/document to anyone, publishing in any magazine and printing in News Paper/Website etc may invite action under various rules of the Board and IPC.”
3.	Evaluation is to be done as per instructions provided in the Marking Scheme. It should not be done according to one’s own interpretation or any other consideration. Marking Scheme should be strictly adhered to and religiously followed. However, while evaluating, answers which are based on latest information or knowledge and/or are innovative, they may be assessed for their correctness otherwise and due marks be awarded to them. In class-X, while evaluating two competency-based questions, please try to understand given answer and even if reply is not from marking scheme but correct competency is enumerated by the candidate, due marks should be awarded.
4.	The Marking scheme carries only suggested value points for the answers. These are in the nature of Guidelines only and do not constitute the complete answer. The students can have their own expression and if the expression is correct, the due marks should be awarded accordingly.
5.	The Head-Examiner must go through the first five answer books evaluated by each evaluator on the first day, to ensure that evaluation has been carried out as per the instructions given in the Marking Scheme. If there is any variation, the same should be zero after deliberation and discussion. The remaining answer books meant for evaluation shall be given only after ensuring that there is no significant variation in the marking of individual evaluators.
6.	Evaluators will mark(✓) wherever answer is correct. For wrong answer CROSS ‘X’ be marked. Evaluators will not put right (✓) while evaluating which gives an impression that answer is correct and no marks are awarded. This is most common mistake which evaluators are committing.
7.	If a question has parts, please award marks on the right-hand side for each part. Marks awarded for different parts of the question should then be totaled up and written in the left-hand margin and encircled. This may be followed strictly.
8.	If a question does not have any parts, marks must be awarded in the left-hand margin and encircled. This may also be followed strictly.
9.	If a student has attempted an extra question, answer of the question deserving more marks should be retained and the other answer scored out with a note “Extra Question” .
10.	No marks to be deducted for the cumulative effect of an error. It should be penalized only once.
11.	A full scale of marks ____ 80 ____ (example 0 to 80/70/60/50/40/30 marks as given in Question Paper) has to be used. Please do not hesitate to award full marks if the answer deserves it.
12.	Every examiner has to necessarily do evaluation work for full working hours i.e., 8 hours every day and evaluate 20 answer books per day in main subjects and 25 answer books per day in other subjects (Details are given in Spot Guidelines).
13.	Ensure that you do not make the following common types of errors committed by the Examiner in the past:- Giving more marks for an answer than assigned to it. <ul style="list-style-type: none">● Wrong totaling of marks awarded on an answer.● Wrong transfer of marks from the inside pages of the answer book to the title page. Wrong question wise totaling on the title page. <ul style="list-style-type: none">● Leaving answer or part thereof unassessed in an answer book.●● Wrong totaling of marks of the two columns on the title page.● Wrong grand total.● Marks in words and figures not tallying/not same.● Wrong transfer of marks from the answer book to online award list.● Answers marked as correct, but marks not awarded. (Ensure that the right tick mark is correctly and clearly indicated. It should merely be a line. Same is with the X for incorrect answer.)



	<ul style="list-style-type: none">• Half or a part of answer marked correct and the rest as wrong, but no marks awarded.
14.	While evaluating the answer books if the answer is found to be totally incorrect, it should be marked as cross (X) and awarded zero (0)Marks.
15.	Any un assessed portion, non-carrying over of marks to the title page, or totaling error detected by the candidate shall damage the prestige of all the personnel engaged in the evaluation work as also of the Board. Hence, in order to uphold the prestige of all concerned, it is again reiterated that the instructions be followed meticulously and judiciously.
16.	The Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the “ Guidelines for spot Evaluation ” before starting the actual evaluation.
17.	Every Examiner shall also ensure that all the answers are evaluated, marks carried over to the title page, correctly totaled and written in figures and words.
18.	The candidates are entitled to obtain photocopy of the Answer Book on request on payment of the prescribed processing fee. All Examiners/Additional Head Examiners/Head Examiners are once again reminded that they must ensure that evaluation is carried out strictly as per value points for each answer as given in the Marking Scheme.

SUPPLEMENTARY EXAMINATION – JULY 2023

Marking Scheme

Class X -Social Science (087)

Paper Code-32/C/2

SET -2

MM-80

S.No.	Values Points	Page No.	Marks-
	Section A Multiple Choice Question		(20X1=20)
1	(c) El Dorado	(H)-55	1
2	(a) Amar Jiban	(H)-124	1
3	(a) Church	(H)-113	1
4	(c) As a protector of German Rhine. For Visually impaired candidates One mark to be awarded to all the visually impaired candidates in this question.	(H)-25	1 1
5	(c) Pulses	(G)-36	1
6	(d) Rules and regulations followed here are declared by the government.	(G)-16	1
7	(d) A-IV, B-I, C-II, D-III	(G)-4	1
8	(b) Christians	(PS)-3	1
9	(a) Mayors	(PS)-25	1
10	(a) Finland	(PS)-31	1
11	(a) Democracy	(PS)-50	1



12	(d) Territorial issues with neighboring countries.	(PS)-67	1
13	(d) To share power among different religious and linguistic social groups.	(PS)-5	1
14	(d) The total income divided by the number of individuals in a population.	(E)-8	1
15	(b) To get as much freedom as her brother gets.	(E)-5	1
16	(b) National Rural Employment Guarantee Act.	(E)-30	1
17	(b) Workers are engaged in the unorganized sector.	(E)-31	1
18	(d) Co-operative societies work under the local self-government.	(E)-47	1
19	(a) Removing barriers on trade.	(E)-64	1
20	(d) It employs labour only from its own country.	(E)-56	1
Section B Very Short Answer Type Questions			(4X2=8)
21	Mention any two aspects of occupational mobility? i. Shift from one occupation to another. ii. When a new generation takes up occupations other than those practiced by their ancestors. iii. Socio- economic changes are happening due to occupational mobility iv. Any other relevant point. Any two aspects to be mentioned.	40 (PS)	2X1=2
22	(a) Explain any two technological reforms initiated by the Indian Government in agriculture. i. Green Revolution based on package approach. ii. White Revolution	38, 39 (G)	2X1=2

	<p>iii. Weather Bulletin</p> <p>iv. Agricultural programs for the farmers on radio and televisions</p> <p>v. HYV Seeds</p> <p>vi. Use of fertilizers, manure, insecticides, pesticides, etc.</p> <p>vii. Any other relevant points.</p> <p>Any two points to be explained.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>(b) How has agriculture been the backbone of Indian economy? Explain.</p> <p>i. Gives employment- Two-third of India's population engaged in agricultural activities.</p> <p>ii. Produces food for consumption.</p> <p>iii. Produces raw material for various industries.</p> <p>iv. Provides agricultural products for exports (E.g., Tea, coffee, spices)</p> <p>v. Contributes to the National Income</p> <p>vi. Contributes in GDP</p> <p>vii. Any other relevant point.</p> <p>Any two points to be explained.</p>	30 (G)	2X1=2
23	<p>Explain the role of women in spreading the print culture in India during the nineteenth century?</p> <p>i. Lives and feelings of women began to be written in particularly vivid and intense ways</p> <p>ii. Women wrote books highlighting their experiences –(Eg Rash Sundari , Tarabai Shinde and Pandita Ramabai)</p> <p>iii. Many journals explained why women should be educated.</p> <p>iv. Syllabus and suitable reading matter were added in journals which could be used for home-based schooling.</p> <p>v. They wrote their autobiographies.</p> <p>vi. Journals edited by women discussed issues like women's education, widowhood, widow remarriage and the national movement.</p> <p>vii. Any other relevant point.</p> <p>Any two points to be explained</p>	124 (H)	2X1=2

24	<p>Analyze the role of tertiary sector in the Indian economy.</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Tertiary sector is a service sector which provides services like banking, communication, transportation, personal services such as washerman etc. ii. The activities of tertiary sector help in the development of the primary and the secondary sectors. iii. These activities provide aid or a support for the production process. iv. This sector develops with the income levels v. New services in this sector such as IT related have gained importance with the development. vi. Any other relevant point. <p>Any two points to be analyzed.</p>	20 (E)	2X1=2
<p>Section C</p> <p>Short Answer Type Questions</p>			(5X3=15)
25	<p>(a) Why did the Non-Cooperation Movement slowdown in towns and cities? Explain.</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Khadi was more expensive than mill made cloth. So, poor could not afford khadi. ii. People again took to cheap machine-made cloth. iii. Boycott of British institutions posed a problem of lack of Indian institutions- alternate Indian institutions to be set up in place of the British ones were slow to come up. iv. Students and teacher began joining back government schools. v. Lawyers also resumed going to courts. vi. Any other relevant point. <p>Any three points to be explained.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>(b) Explain the participation of the business class in the Civil Disobedience Movement.</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Indian industrialists' class was keen on expanding their business, they now reacted against colonial policies that restricted business activities. 	34 (H)	3X1=3
		42 (H)	3X1=3



	<ul style="list-style-type: none"> ii. They wanted protection against imports of foreign goods iii. They wanted protection in rupee-sterling foreign exchange ratio that would discourage imports. iv. To organise business interests, they formed the Indian Industrial and Commercial Congress in 1920 and the Federation of the Indian Chamber of Commerce and Industries (FICCI) in 1927. v. Led by prominent industrialists like Purushottam das, Thakur das and G. D. Birla, the industrialists attacked colonial control over the Indian economy vi. They supported the Civil Disobedience Movement vii. They gave financial assistance and refused to buy or sell imported goods. viii. Most businessmen came to see swaraj as a time when colonial restrictions on business would no longer exist and trade and industry would flourish without constraints. ix. Any other relevant point. <p>Any three points to be explained.</p>		
26	<p>Why are resources vital for any developmental activity? Explain.</p> <ul style="list-style-type: none"> i. For maintaining the quality of life. ii. For the development of country. iii. For the sustainable development. iv. For ecological balance. v. Any other relevant point. <p>Any three points to be explained.</p>	2 (G)	3X1=3
27	<p>Analyze the impact of globalization on the Indian economy.</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Greater competition among the producers. ii. Advantage to the consumers. iii. Consumers can compare quality, price, suitability, safety of products. So, consumers are benefited. iv. Improved quality of the products. v. Lower prices of several products. vi. Higher standard of living. vii. New jobs have been created. 	(E)- 66	3X1=3



	<p>viii. It has enabled some large Indian companies to emerge as Multi-Nationals.</p> <p>ix. It has created new opportunities for companies providing services.</p> <p>x. Any other relevant point.</p> <p>Any three points to be analyzed.</p>		
28	<p>“Democracy produce an accountable, responsive and legitimate government.” Justify the statement.</p> <p>i. The democratic government develops mechanisms for citizens to hold the government accountable.</p> <p>ii. The democratic government develops mechanisms for citizens to take part in decision making.</p> <p>iii. Democracy ensures that the decisions are based on norms and procedures.</p> <p>iv. Democracy is based on the idea of deliberation and negotiation.</p> <p>v. Regular, free and fair election.</p> <p>vi. Open public debate on major policies and legislations.</p> <p>vii. Citizens have right to information about government and its functioning.</p> <p>viii. It promotes equality among citizens.</p> <p>ix. Democracy is responsive to the needs of the people.</p> <p>x. It promotes equal status and equal opportunity to all.</p> <p>xi. It is transparent as whatever policies government is framing, knowledge of same is there with the people also.</p> <p>xii. Democratic government is a legitimate government.</p> <p>xiii. Any other relevant point.</p> <p>Any three points to be explained.</p>	(PS)- 65	3X1=3
29	<p>Explain the contribution of Public Sector in the economic development of a nation</p> <p>i. In the public sector, the government owns most of the assets and provides all the services.</p> <p>ii. Fair price and Ration shops</p> <p>iii. Subsidies to many business units.</p> <p>iv. Providing health and education facilities for all</p>	(E)- 33	3X1=3

	<p>v. Public sectors help in the development of Human development such as availability of safe drinking water, housing facilities for the poor and food and nutrition.</p> <p>vi. Government takes care of the poorest and most ignored regions of the country through increased spending in such areas.</p> <p>vii. Railways or post office is an example of the public sector.</p> <p>viii. The purpose of the public sector is not just to earn profits but to do welfare.</p> <p>ix. It helps in the development of industries.</p> <p>x. It contributes to the community development.</p> <p>xi. It ensures easy availability of goods at moderate rate.</p> <p>xii. Any other relevant point.</p> <p>Any three points to be explained.</p>		
<p>Section D</p> <p>Long Answer Type Questions</p>			(4X5=20)
30	<p>(a) Describe the decisions taken in the Treaty of Vienna of 1815.</p> <p>i. Treaty of Vienna of 1815 was drawn up with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic wars.</p> <p>ii. The Bourbon dynasty, which had been deposed during the French Revolution, was restored to power, and France lost the territories it had annexed under Napoleon.</p> <p>iii. A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future.</p> <p>iv. Kingdom of the Netherlands, which included Belgium, was set up in the north and Genoa was added to Piedmont in the south.</p> <p>v. Prussia was given important new territories on its western frontiers</p> <p>vi. Austria was given control of northern Italy.</p> <p>vii. Russia was given part of Poland while Prussia was given a portion of Saxony.</p> <p>viii. German confederation of 39 states that had been set up by Napoleon was left untouched.</p> <p>ix. The main intention was to restore the monarchies that had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe.</p> <p>x. Any other relevant point.</p>	(H)- 11	5X1=5



	<p>Any five points to be described.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>(b) Describe the economic hardship faced by Europe in 1830s.</p> <ol style="list-style-type: none"> i. The first half of the nineteenth century saw an enormous increase in population all over Europe. ii. In most countries there were more seekers of jobs than employment. iii. Population from rural areas migrated to the cities to live in overcrowded slums. iv. Small producers in towns were often faced with stiff competition from imports of cheap machine-made goods from England. v. Peasants struggled under the burden of feudal dues and obligations. vi. The rise of food prices or a year of bad harvest led to widespread pauperism in town and country. xi. Any other relevant point. <p>Any five points to be described.</p>	<p>(H)- 15</p>	<p>5X1=5</p>
<p>31</p>	<p>(a) Analyse the benefit of using pipelines as a means of transport in India.</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Pipelines are being used for transporting crude oil. ii. They help in transporting petroleum products. iii. Natural gas also gets transported through pipeline. iv. It can be transported to faraway inland locations like Barauni, Mathura and Panipat. v. Pipelines have proved beneficial for gas-based fertilizer plants. vi. Solids can also be transported through a pipeline when converted into slurry. vii. Running cost of pipelines is minimal. viii. They help in uninterrupted supply. ix. It rules out trans-shipment losses or delays. x. Any other relevant point. <p>Any five points to be analyzed.</p> <p style="text-align: center;">OR</p>	<p>(G)- 75</p>	<p>5x1=5</p>

	<p>(b) Examine the significance of ‘Trade’ for the Indian economy.</p> <ol style="list-style-type: none"> i. The exchange of goods among people, states and countries is referred to as trade. ii. It may take place through sea, air or land routes. iii. Advancement of trade of a country is an index to its economic prosperity. iv. It is considered the economic barometer for a country. v. It facilitates the exchange of goods and services between India and other countries. vi. Export and import are the components of trade. vii. When the value of export exceeds the value of imports, it is called a favorable balance of trade. viii. It helps in earning large foreign exchange through export of commodities, goods and services like gems, jewelry, chemicals, IT etc. ix. Helps to develop India’s trade relationship with all the major trading blocks and all geographical regions of the world. x. Any other relevant point. <p>Any five points to be examined.</p>	<p>(G)- 80,81</p>	<p>5X1=5</p>
<p>32</p>	<p>(a) Explain the role of Self –Help Groups in rural society.</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Self –Help Groups in rural society is a way of providing loans to the poor. ii. The idea is to organize rural poor, in particular women, into small Self-Help Groups (SHGs) and pool (collect) their savings. iii. Saving per member varies from Rs 25 to Rs 100 or more, depending on the ability of the people to save. iv. Members can take small loans from the group itself to meet their needs. v. Loan is sanctioned by the bank in the name of the group and is meant to create self-employment opportunities for the members. vi. Most of the important decisions regarding the savings and loan activities are taken by the group members. vii. The group decides the loans to be granted — the purpose, amount, interest to be charged, repayment schedule etc. viii. Any case of non-repayment of loan by any one member is followed up seriously by other members in the group. ix. Because of this feature, banks are willing to lend to the poor women when organized in SHGs, even though they have no collateral as such. 	<p>51 (E)</p>	<p>5X1=5</p>



	<p>x. Any other relevant point.</p> <p>Any five points to be explained</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>(b) Why it is necessary for banks and co-operative to extend their lending activities in rural areas? Explain.</p> <p>i. This would lead to higher incomes and many people could then borrow cheaply for a variety of needs, without getting into the debt trap.</p> <p>ii. They could grow crops, do business, set up small-scale industries etc.</p> <p>iii. Cheap and affordable credit is crucial for the country's development.</p> <p>iv. Most loans from informal lenders carry a very high interest rate and do little to increase the income of the borrower.</p> <p>v. Thus, it is necessary that banks and cooperatives increase their lending particularly in the rural areas, so that the dependence on informal sources of credit reduces.</p> <p>vi. At present, it is the richer households who receive formal credit whereas the poor have to depend on the informal sources.</p> <p>vii. It is important that the formal credit is distributed more equally so that the poor can benefit from the cheaper loans.</p> <p>viii. Any other relevant point.</p> <p>Any five points to be explained</p>	<p>49, 50 (E)</p>	<p>5X1=5</p>
<p>33</p>	<p>(a) Define Political Parties. Explain any four main challenges faced by the political parties.</p> <p><u>Definition of Political Parties:</u></p> <p>Political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. (1)</p> <p><u>Challenges faced by political parties:</u></p> <p>i. Lack of internal democracy within parties</p> <p>ii. Political parties do not conduct regular internal elections and do not hold meetings.</p> <p>iii. Dynastic Succession</p>	<p>47, 57 (PS)</p>	<p>1+4=5</p>

	<p>iv. Growing role of money and muscle power in parties v. Lack of Meaningful Choice to the Voters v. Any other relevant point.</p> <p>Any four points to be explained (4)</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>(b) Define multi - party system. Explain its merits and demerits.</p> <p><u>Definition of multi - party system</u> –</p> <p>If several parties compete for power, and more than two parties have a reasonable chance of coming to power either on their own strength or in alliance with others, we call it a multiparty system. (1)</p> <p><u>Merit:</u></p> <p>i. This system allows a variety of interests and opinions to enjoy political representation. ii. More choice with the voters iii. Any other relevant point. (2)</p> <p><u>Demerit:</u></p> <p>i. The multiparty system often appears very messy ii. Sometimes it leads to political instability. iii. Any other relevant point. (2)</p> <p>(Any two points to be explained from each section)</p>	55(PS)	1+2+2=5
<p>Section E</p> <p>CASE BASED QUESTIONS</p>			(3X4=12)
34	<p>Read the following source carefully and answer the questions that follow:</p> <p><i>The earliest factories in England came up by the 1730s. But it was only in the late eighteenth century that the number of factories multiplied.</i></p>	82(H)	1+1+2=4



The first symbol of the new era was cotton. Its production boomed in the late nineteenth century. In 1760 Britain was importing 2-5 million pounds of raw cotton to feed its cotton industry. By 1787 this import soared to 22 million pounds. This increase was linked to a number of changes within the process of production. Let us look briefly at some of these.

A series of inventions in the eighteenth century increased the efficacy of each step of the production process (carding, twisting and spinning, and rolling). They enhanced the output per worker, enabling each worker to produce more, and they made possible the production of storage threads and yarn. Then Richard Arkwright created the cotton mill. Till this time, as you have seen, cloth production was spread all over the countryside and carried out within village households. But now, the costly new machines could be purchased, set up and maintained in the mill. Within the mill all the processes were brought together under one roof and management. This allowed a more careful supervision over the production process, a watch over quality, and the regulation of labour, all of which had been difficult to do when production was in the countryside.

(34.1) When did the earliest factories come up?

The earliest factories came up in England by 1730's (1)

(34.2) Why were all the processes brought together under one roof and management in the mill?

- i. This allowed a more careful supervision over the production process.
- ii. Watch over quality.
- iii. Regulation of labour.
- iv. Any other relevant point.

Any one point to be mentioned. (1)

(34.3) How did the series of inventions in the eighteenth century increase the efficacy of the production process?

- i. They enhanced the output per worker.
- ii. They enabled each worker to produce more.
- iii. They made possible the production of stronger threads and yarn.
- iv. Any other relevant point.

Any two points to be mentioned. (2x1=2)



35	<p>Read the following source carefully and answer the questions that follow:</p> <p><i>A dam is a barrier across flowing water that obstructs, directs or retards the flow, often creating a reservoir, lake or impoundment. "Dam" refers to the reservoir rather than the structure. Most dams have a section called a spillway or weir over which or through which it is intended that water will flow either intermittently or continuously. Dams are classified according to structure, intended purpose or height. Based on structure and the materials used, dams are classified as timber dams, embankment dams or masonry dams, with several subtypes. According to the height, dams can be categorised as large dams and major dams or alternatively as low dams, medium height dams and high dams.</i></p> <p>(35.1) What does the word Dam' actually refer to?</p> <p>"Dam" refers to the reservoir rather than the structure or a dam is a barrier across flowing water that obstructs, directs or retards the flow, often creating a reservoir, lake or impoundment.</p> <p>Any one point to be mentioned. (1)</p> <p>(35.2) Mention any one benefit of a Multi-purpose River Valley Project.</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Dams are used for electricity generation. ii. Dams are used for irrigation purpose. iii. Any other relevant point. <p>Any one point to be mentioned. (1)</p> <p>(35.3) How have multi-purpose river valley projects a cause of social movements? Explain.</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Large scale displacement of local communities. ii. Local people had to give up their land and livelihood. iii. Local people lost control over their meagre resources for the greater good of the nation. iv. Any other relevant point. <p>Any two points to be mentioned. (2X1=2)</p>	22 (G)	1+1+2=4
----	--	--------	---------

36	<p>Read the following source carefully and answer the questions that follow:</p> <p><i>Power sharing arrangements can also be seen in the way political parties, pressure groups and movements control or influence those in power. In a democracy, the citizens must have freedom to choose among various contenders for power. In contemporary democracies, this takes the form of competition among different parties. Such competition ensures that power does not remain in one hand. In the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups. Sometimes this kind of sharing can be direct, when two or more parties form an alliance to contest elections. If their alliance is elected, they form a coalition government and thus share power. In a democracy, we find interest groups, such as those of traders, businessmen, industrialists, farmers and industrial workers. They also will have a share in governmental power, either through participation in governmental committees or bringing influence on the decision-making process.</i></p> <p>(36.1) What does competition among different parties ensure?</p> <ol style="list-style-type: none"> Such competition ensures that power does not remain in one hand. Power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups. Any other relevant point. <p>Any one point to be mentioned. (1)</p> <p>(36.2) How are interest groups associated with politics?</p> <ol style="list-style-type: none"> They are associated with politics through participation in governmental committees. They bring influence on the decision-making process. Any other relevant point. <p>Any one point to be mentioned. (1)</p> <p>(36.3) Explain the different forms of power sharing.</p> <ol style="list-style-type: none"> Power is shared among different organs of government such as – Legislative, Executive and Judiciary. Power shared among governments at different levels. Power shared among different social group. Power shared among political parties, pressure groups and movements. Any other relevant point. <p>Any two point to be explained. (2X1=2)</p>	9(PS)	1+1+2=4
----	--	-------	---------

	Section F Map Based Questions		(2+3=5)
37	<p>(a) Two places A and B have been marked on the given political outline map of India (on page 23). Identify these places with the help of the following information and write their correct names on the lines drawn near them:</p> <p>(i) The place where the Indian National Congress Session was held in 1927. - Madras</p> <p>(ii) The place where Gandhiji organized Satyagraha for the indigo planters. –Champaran</p> <p style="text-align: center;">SEE ATTACHED MAP</p> <p>(b) On the same political outline map of India, locate and label any three of the following with suitable symbols :</p> <p>i. Salal Dam- Jammu and Kashmir</p> <p>ii. Ramagundam Thermal Power Plant - Telangana</p> <p>iii. Gandhinagar Software Technology Park- Gujarat</p> <p>iv. Tuticorin Sea Port – Tamil Nadu</p> <p style="text-align: center;">SEE ATTACHED MAP</p> <p>Note: The following questions are for the Visually Impaired Candidates only, in lieu of Q. No. 37.</p> <p>Answer any five questions.</p> <p>(37.1) Name the place where the Indian National Congress Session was held in 1927. - Madras</p> <p>(37.2) Name the place in Gujarat where mill workers organized Satyagraha under Gandhiji's leadership. - Ahmedabad</p> <p>(37.3) Name the state where Salal Dam is located. – Jammu and Kashmir</p> <p>(37.4) Name the state where Ramagundam Thermal Power Plant is located. - Telangana</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1x3=3</p> <p>1x5=5</p>	

(37.5) Name the state where Gandhinagar Software Technology Park is located. -

Gujarat

(37.6) Name the state where Tuticorin Sea Port is located. – **Tamil Nadu**

1x5=5

